

# स्कूल की पुरानी इमारत में चल रहा था नकली सीमेंट का कारोबार



संवाद सहयोगी, जसराना: गांव नूरपुर के पास एक स्कूल की पुरानी इमारत में नकली सीमेंट का कारोबार चल रहा था। सोमवार की दोपहर पुलिस और एसओजी ने छापेमारी कर इसका भंडाफोड़ किया। तलाशी में यहां काफी मात्रा में खुला और बोरियों में पैक सीमेंट मिला है। पुलिस कारोबारियों की तलाश कर रही है।

नकली सीमेंट की फैक्ट्री चलने की सूचना पर एसओजी ने दोपहर तीन बजे करीब गांव नूरपुर के पास एक इंटर कालेज की पुरानी इमारत पर छापा मारा। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग भाग गए। तलाशी के दौरान वहां एसीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट दर्जनों खाली और भरी बोरियां रखी मिलीं। एक जगह काफी मात्रा में खुला सीमेंट रखा था। सीमेंट कूटने एवं छानने के उपकरण भी मिले। इससे आशंका जताई जा रही है कि वहां घटिया या नकली सीमेंट को ब्रांडेड कंपनियों की बोरी में पैक करके बेचने का काम चल रहा था। पुष्टि के लिए पुलिस ने एसीसी सीमेंट के जिले के अधिकृत विक्रेता केशवदेव गुप्ता एवं अल्ट्राटेक सीमेंट के जसराना के अधिकृत विक्रेता नितिन गुप्ता को बुलाया। उन्होंने भी सीमेंट के नकली होने की आशंका जताई। पुलिस ने तलाशी के दौरान मिले उपकरण एवं सीमेंट की बोरियों को जब्त कर लिया। एक टैक्टर ट्राली और उसमें रखी 30 से 40 बोरी सीमेंट भी जब्त की गई हैं। सीओ देवेन्द्र सिंह का कहना है कि अभी इस मामले की जांच चल रही है। नकली सीमेंट का कारोबार कौन कर रहा था उस व्यक्ति का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/firozabad-fzd-22526746.html>